

**THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY
(SHRI SIDDHESHWAR PRASAD):**

(a) and (b). The investigations are continuing and the case is pending in the Court. A Liquidator has been appointed.

(c) and (d). The question of refund of the share money will be considered after the investigations are completed and the Court issues orders in the matter.

**भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार द्वारा
में लाई गई भूमि**

426. श्री मुल्कीराज सैनी : क्या भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार के पास कितने एकड़ कृषि योग्य भूमि है ;

(ख) किसानों को कितनी भूमि पट्टे पर दी गई है ;

(ग) कितनी भूमि अप्रयुक्त पड़ी हुई है ; और

(घ) क्या यह भूमि किसानों को अस्थायी पट्टे पर देने का विचार है और यदि हाँ तो कब ?

भारी उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) 809 एकड़ ।

(ख) 394 एकड़ ।

(ग) 415 एकड़ ।

(घ) जी हाँ । जनवरी 1973 में उत्तर प्रदेश सरकार को इस आशय की जानकारी दी गई थी कि अप्रयुक्त भूमि किसानों को अस्थायी और पर पट्टे पर दी जा सकती है ।

Seminar on Safety in Design and Utilisation of Machine Tools

427. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of HEAVY INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the conclusions and recommendations of the seminar conducted by the National Safety Council and the Central Machine Tools Institute on "Safety in the design and utilisation of machine tools" at Bangalore on the 12th January, 1973;

(b) if so, the salient points of the suggestions and recommendations made at the seminar; and

(c) the reaction of Government thereto?

**THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY
(SHRI SIDDHESHWAR PRASAD):**

(a) to (c). At the seminar held in Bombay recommendations were made for publication of a paper on Safety Code for Machine Tools as National Code. These are being considered by the Indian Standards Institution, concerned with the formulation of Standards and Codes. The suggestions are however, for adoption by designers and users of machine tools and as such no action by the Government is contemplated.

**उदयपुर जिक लिमिटेड, राजस्थान से
बिब्ली गैस**

429. श्री लालजी भाई : क्या श्रम और पुरुषास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में उदयपुर जिक लिमिटेड के एसिड और रोस्टर प्लांट में से बिब्ली गैस (सल्फर डाइआक्साइड) बहुत अधिक मात्रा में लीक हो रही है जिसके फलस्वरूप वहाँ का वायुमण्डल दूषित हो रहा है जिससे वहाँ के श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और उन्हें क्षय रोग (टी० बी०) और कोसिलीस रोग होने लगे हैं; और